



The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

Press Release

रांची
19/09/2019

इकफ़ाई विश्वविद्यालय के द्वारा सिमलिया गांव के स्कूली बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण

आज, पड़ोसी सिमलिया गाँव के स्कूली बच्चों को, इकफ़ाई विश्वविद्यालय द्वारा सोशल आउटरीच सर्विस के एक भाग के रूप में, स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। ये बच्चे सरकारी स्कूलों में V से VIII तक की पढाई कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओ आर एस राव ने स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित करते हुए कहा, "हमारा विश्वविद्यालय सिमलिया गाँव के स्कूली बच्चों को पिछले दो वर्षों से शाम को निशुल्क कक्षाओं के संचालन में मदद कर रहा है। प्रो राव ने कहा की जब हमें पता चला कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, तो हमने यूनिफॉर्म प्रदान करने का फैसला किया। इसके अलावा, हम स्कूली छात्रों को कम्युनिकेशन स्किल्स और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रदान करने जैसे व्यक्तित्व विकास में मदद कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में पिछले शिक्षक दिवस समारोह के दौरान, इन छात्रों द्वारा एक नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।

"इसके अलावा, हमारे विश्वविद्यालय ने ग्रामीणों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें कानूनी समस्याओं के संबंध में सलाह देने के लिए एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया, जो कि ग्रामीणों द्वारा किसी भी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है", प्रो राव ने कहा। उन्होंने ग्रामीणों को बच्चों के विकास में किसी भी तरह की मदद करने का आश्वासन दिया।

इस मौके पर सिमलिया गाँव की सुश्री सीमा, जो की विश्वविद्यालय की एक हाउस कीपिंग स्टाफ है, ने कई तरह से ग्रामीणों की मदद के लिए विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त किया।

समारोह में प्रो अरविंद कुमार, रजिस्ट्रार, प्रो यू के शर्मा, एचओडी (खनन), डॉ श्री रंजन, एचओडी (आईटी) और अन्य संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया।

=====